


$$\therefore x - y = 5 \quad \text{.....(vi)}$$

समी. (v) और समी. (vi) को जोड़ने पर
 $2x = 16$

$$\therefore x = 8 \text{ किमी./घंटा}$$

Trick-

समय धारा की विपरीत दिशा में दूरी धारा की दिशा में चाल



$$\text{धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल} = \frac{30 \times 55 - 40 \times 44}{55 \times 10 - 44 \times 13}$$

$$= \frac{1650 - 1760}{550 - 572} = \frac{-110}{-22} \text{ किमी./घंटा} = 2 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{धारा की दिशा में चाल} = \frac{30 \times 55 - 40 \times 44}{30 \times 13 - 40 \times 10}$$

$$= \frac{1650 - 1760}{390 - 400} = \frac{-110}{-10} \Rightarrow 11 \text{ किमी./घंटा} = 2 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{नाव की चाल} = \frac{5+11}{2} \Rightarrow 8 \text{ किमी./घंटा}$$

13. एक नाव, धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किमी. चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किमी. चलती है। तदनुसार, स्थिर पानी में नाव की गति तथा उसी पानी में धारा की गति कितनी है?

- (a) 4 किमी./घंटा तथा 3 किमी./घंटा
 (b) 4.5 किमी./घंटा तथा 0.5 किमी./घंटा
 (c) 4 किमी./घंटा तथा 2 किमी./घंटा
 (d) 5 किमी./घंटा तथा 2 किमी./घंटा

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर-(b)

व्याख्या— माना नाव की चाल x किमी./घंटा एवं धारा की चाल y किमी./घंटा है।

अतः प्रश्न से

$$x - y = \frac{24}{6}$$

$$\text{या } x - y = 4 \dots\dots\dots\text{(i)}$$

$$\text{तथा } x + y = \frac{20}{4}$$

$$x + y = 5 \dots\dots\dots\text{(ii)}$$

समी. (i) व (ii) से—

$$x = 4.5 \text{ किमी./घंटा}, y = 0.5 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{अतः पानी में नाव की चाल} = 4.5 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{तथा धारा की चाल} = 0.5 \text{ किमी./घंटा}$$

Trick—

$$\text{धारा की दिशा में नाव की चाल} = \frac{24}{6} \Rightarrow 4 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{धारा की विपरीत दिशा में चाल} = \frac{20}{4} \Rightarrow 5 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{धारा की गति} = \frac{5-4}{2} \Rightarrow 0.5 \text{ किमी./घंटा}$$

14. एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किमी./घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार, यदि जल-धारा की गति 2 किमी./घंटा हो, तो उस व्यक्ति को 10 किमी. धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा?

$$(a) 9\frac{1}{3} \text{ घंटे} \qquad (b) 10 \text{ घंटे}$$

$$(c) 12 \text{ घंटे} \qquad (d) 8\frac{1}{3} \text{ घंटे}$$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर-(c)

व्याख्या— व्यक्ति की स्थिर जल में चाल = 3 किमी./घंटा

तथा धारा की चाल = 2 किमी./घंटा

$$\text{धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल} = 3 + 2 \\ = 5 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल} = 3 - 2 \\ = 1 \text{ किमी./घंटा}$$

व्यक्ति द्वारा 10 किमी. धारा के विपरीत जाने एवं पुनः उसी स्थान

$$\text{पर वापस आने में लिया गया कुल समय} = \frac{10}{1} + \frac{10}{5} \\ = 10 + 2 \\ = 12 \text{ घंटा}$$

15. एक व्यक्ति 6 किमी./घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किमी./घंटा हो, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तदनुसार, वह दूरी कितनी है?

- (a) 30 किमी. (b) 24 किमी.
 (c) 20 किमी. (d) 32 किमी.

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर-(b)

व्याख्या— माना दूरी x किमी. है।

अतः प्रश्न से

$$\frac{x}{(6-2)} - \frac{x}{(6+2)} = 3$$

$$\begin{aligned}\frac{x}{4} - \frac{x}{8} &= 3 \\ 2x - x &= 24 \\ x &= 24 \text{ किमी.}\end{aligned}$$

16. एक नाव धारा के दिशा के अनुकूल 8 किमी./घंटा की चाल से चलती है तथा धारा के दिशा के प्रतिकूल 4 किमी./घंटा की चाल से। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी?

- (a) 4.5 किमी./घंटा
- (b) 5 किमी./घंटा
- (c) 6 किमी./घंटा
- (d) 4 किमी./घंटा

S.S.C. L.D.C. परीक्षा, 2005

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2000, 2005, 2006, 2010
S.S.C. ऑफिसलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 7 सितंबर, 2016 (III-पार्टी)
उत्तर-(c)

व्याख्या— दिया है

नाव की धारा के दिशा में चाल = 8 किमी./घंटा
 नाव की धारा के विरुद्ध चाल = 4 किमी./घंटा

$$\text{विशेषज्ञता} = \frac{\text{दिशा में चाल} - \text{दिशा के विरुद्ध चाल}}{2}$$

$$= \frac{8-4}{2} \Rightarrow 2 \text{ किमी./घंटा}$$

शांत जल में नाव की चाल = धारा के दिशा में चाल – धारा की चाल
 $= 8 - 2$
 $= 6 \text{ किमी./घंटा}$

Trick— शांत जल में नाव की चाल

$$\begin{aligned}& \text{विशेषज्ञता} + \text{विशेषज्ञता} \\ &= \frac{\text{विशेषज्ञता} + \text{विशेषज्ञता}}{2} \\ &= \frac{8+4}{2} \Rightarrow 6 \text{ किमी./घंटा}\end{aligned}$$

17. एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किमी./घंटा हो, तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी (किमी. में) है—

- (a) 60
- (b) 70
- (c) 80
- (d) 90

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर-(c)

व्याख्या— माना नाव की चाल x किमी./घंटा है।

दिया है

धारा की गति 1 किमी./घंटा

$$\therefore \text{धारा की दिशा में नाव की चाल} = (x+1) \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल} = (x-1) \text{ किमी./घंटा}$$

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned}(x+1)8 &= (x-1) \times 10 \\ 8x+8 &= 10x-10 \\ 2x &= 18 \\ x &= 9 \text{ किमी./घंटा}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{अभीष्ट दूरी} = (x+1)8 \\ = (9+1)8 \Rightarrow 80 \text{ किमी.}$$

प्रकार-3

गुना-आधारित

18. एक व्यक्ति स्थिर पानी में $7\frac{1}{2}$ किमी. प्रति घंटे की गति से

नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दोगुना समय लगता है। तबनुसार, नदी की धारा की गति कितनी है?

- (a) 2 किमी./घंटा
- (b) 3 किमी./घंटा

- (c) $2\frac{1}{2}$ किमी./घंटा
- (d) $3\frac{1}{2}$ किमी./घंटा

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003, 2008

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2003, 2008

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2011

उत्तर-(c)

व्याख्या— माना नदी की धारा की गति x किमी./घंटा है।

अतः प्रश्न से

$$2\left(\frac{15}{2}-x\right) = \frac{15}{2}+x$$

$$15-2x = \frac{15}{2}+x$$

$$3x = \frac{15}{2} \Rightarrow x = \frac{15}{3 \times 2}$$

$$= 2\frac{1}{2} \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{Trick—} \frac{\text{विशेषज्ञता}}{\text{विशेषज्ञता}} = \frac{\text{गति}+1}{\text{गति}-1}$$

$$\frac{7.5}{\text{विशेषज्ञता}} = \frac{2+1}{2-1}$$

$$\frac{7.5}{\text{विशेषज्ञता}} = \frac{3}{1}$$

$$\text{धारा की चाल} = \frac{7.5}{3} \Rightarrow 2.5 \text{ किमी./घंटा}$$

19. एक नौका स्थिर जल में 9 किमी. प्रति घंटा चलती है। किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है। धारा की गति क्या है?

- (a) 6 किमी. प्रति घंटा
- (b) 8 किमी. प्रति घंटा

- (c) 4 किमी. प्रति घंटा (d) 5 किमी. प्रति घंटा
- S.S.C. मल्टी टॉर्सिंग परीक्षा, 2014

उत्तर-(a)

माना कुल दूरी = 9 किमी.

$$\therefore \text{शांत जल में नाव द्वारा लगा समय} = \frac{9}{9} \Rightarrow 1 \text{ घंटा}$$

माना धारा की चाल = y किमी.

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned} 9 - y &= \frac{9}{3} \\ 9 - y &= 3 \\ y &= 9 - 3 \\ y &= 6 \text{ किमी./घंटा} \end{aligned}$$

प्रकार-4

विविध

20. एक व्यक्ति 60 किमी. की दूरी तक नाव चलाकर जाता है और 13 घंटे 30 मिनट में वापस आता है वह देखता है कि वह प्रवाह के साथ उत्तरे समय में 5 किमी. जा सकता है जितने समय में वह प्रति प्रवाह में 4 किमी. जा सकता है। प्रवाह की गति ज्ञात करें।

- (a) $\frac{1}{2}$ किमी. प्रति घंटा
 (b) 8 किमी. प्रति घंटा
 (c) 10 किमी. प्रति घंटा
 (d) 1 किमी. प्रति घंटा

S.S.C. संयुक्त हायर सेकंडरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर-(d)

व्याख्या— माना नाव की चाल = x किमी.

तथा धारा की चाल = y किमी.

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned} \frac{x+y}{x-y} &= \frac{5}{4} \\ 4x + 4y &= 5x - 5y \\ \therefore 5x - 4x &= 5y + 4y \\ x &= 9y \dots \text{(i)} \end{aligned}$$

$$\therefore 13 \text{ घंटे } 30 \text{ मिनट} = \frac{60}{x+y} + \frac{60}{x-y}$$

$$\frac{27}{2} = 60 \left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{x-y} \right)$$

$$\frac{27}{120} = \frac{2x}{(x+y)(x-y)}$$

समी. (i) से x का मान रखने पर

$$\frac{27}{120} = \frac{2 \times 9y}{(9y+y)(9y-y)}$$

$$\begin{aligned} \frac{9}{40} &= \frac{18y}{10y \times 8y} \\ 9 \times 10y \times 8y &= 40 \times 18y \\ y \times 720 &= 720 \\ y &= 1 \\ \text{अतः धारा की चाल} &= 1 \text{ किमी./घंटा} \end{aligned}$$

21. दो नाव A तथा B, 108 किमी. की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक-दूसरे की ओर रवाना होते हैं। शांत जल में नाव A और B की चाल क्रमशः 12 किमी./घंटा तथा 15 किमी./घंटा है। यदि A धारा के अनुकूल तथा B विपरीत दिशा में चल रही हों, तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी?

- (a) 4.5 घंटे (b) 4 घंटे
 (c) 5.4 घंटे (d) 6 घंटे

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर-(b)

व्याख्या— माना धारा की गति है x किमी./घंटा और वे y घंटे में मिलते हैं।

प्रश्नानुसार

$$\begin{aligned} (12+x)y + (15-x)y &= 108 \\ y(12+x) + (15-x)y &= 108 \\ y &= \frac{108}{27} = 4 \\ y &= 4.0 \text{ घंटे} \end{aligned}$$

Trick—

नाव की सापेक्षिक चाल = $12 + 15 = 27$ किमी./घंटा

$$\text{दूरी} = 108 \text{ किमी.} \quad \therefore \text{time} = \frac{\text{distance}}{\text{speed}}$$

$$\text{समय} = \frac{108}{27} \Rightarrow 4 \text{ घंटा}$$

22. एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किमी. प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किमी. प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किमी. की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चला कर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय है-

- (a) 6 घंटे 10 मिनट (b) 4 घंटे 20 मिनट
 (c) 8 घंटे (d) 10 घंटे

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर-(c)

व्याख्या— नौका की धारा के अनुकूल चाल = $6 + 1.5 = 7.5$ किमी./घंटा

$$\begin{aligned} \text{धारा के विपरीत चाल} &= 6 - 1.5 \\ &= 4.5 \end{aligned}$$

∴ नौका पर बैठे व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाते हुए लगा कुल

$$\text{समय} = \frac{22.5}{7.5} \Rightarrow 3 \text{ घंटे}$$

$$\text{धारा के विपरीत लगा कुल समय} = \frac{22.5}{4.5} \Rightarrow 5 \text{ घंटे}$$

$$\therefore \text{व्यक्ति द्वारा कुल लगा समय} = 3 + 5 \Rightarrow 8 \text{ घंटे}$$

23. कोई मोटरबोट शांत जल में 36 किमी./घंटा की चाल से चलती है यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे, 45 मिनट में 56 किमी. जाती है उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

- (a) 2 घंटे 25 मिनट
- (b) 3 घंटे
- (c) 1 घंटा 24 मिनट
- (d) 2 घंटे 21 मिनट

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007

उत्तर-(c)

व्याख्या—धारा के विपरीत चाल = $\frac{56}{7} - \frac{4}{4} = 32$ किमी./घंटा

$$\begin{aligned}\therefore \text{माना धारा की चाल} &= x \text{ किमी./घंटा} \\ 36 - x &= 32 \\ x &= 36 - 32 \\ &= 4 \text{ किमी./घंटा}\end{aligned}$$

$$\therefore \text{धारा की दिशा में मोटरबोट की चाल} = (36+4) \text{ किमी./घंटा} \\ = 40 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\therefore \text{समय} = \frac{56}{40} = \frac{7}{5} \\ = 1 \text{ घंटा } 24 \text{ मिनट}$$

24. शांत जल में नाव की गति 4 किमी./घंटा है तथा धारा की गति 2 किमी./घंटा है। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है, तो दूरी (किमी. में) है?

- (a) 12
- (b) 9
- (c) 15
- (d) 18

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 18 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2004, 2008

उत्तर-(a)

व्याख्या—

$$\text{धारा के अनुकूल नाव की चाल} = 4 + 2 \Rightarrow 6 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{धारा के प्रतिकूल नाव की चाल} = 4 - 2 \Rightarrow 2 \text{ किमी./घंटा}$$

माना x किमी. दूरी नाव तय करती है।

(x किमी. जाने में तथा x किमी. वापस आने में)

$$\therefore \frac{x}{6} + \frac{x}{2} = 8$$

$$\frac{x+3x}{6} = 8$$

$$\therefore 4x = 8 \times 6$$

$$x = \frac{8 \times 6}{4} \Rightarrow 12 \text{ किमी.}$$

25. शांत जल में एक व्यक्ति की गति 10 किमी./घंटा है। यदि धारा की गति 2 किमी./घंटा है, उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है, उससे 3 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। दूरी (किमी. में) क्या है?

- (a) 36
- (b) 72
- (c) 48
- (d) 24

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 16 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर-(b)

व्याख्या— ∴ धारा के अनुकूल नाव की चाल = शिथर जल में नाव की चाल + धारा की चाल

$$\text{धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल} = 10 + 2 \Rightarrow 12 \text{ किमी./घंटा}$$

$$\text{धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल} = 10 - 2 \Rightarrow 8 \text{ किमी./घंटा}$$

माना एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी x किमी. है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{8} - \frac{x}{12} = 3$$

$$\frac{3x - 2x}{24} = 3$$

$$\therefore x = 24 \times 3 \Rightarrow 72 \text{ किमी.}$$

26. शांत जल में नाव की गति 6 किमी./घंटा है तथा धारा की गति 1 किमी./घंटा है। यदि नाव 12 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है, तो दूरी (किमी. में) कितनी है?

- (a) 21
- (b) 28
- (c) 35
- (d) 70

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 17, 20 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर-(c)

व्याख्या— धारा के अनुकूल नाव की चाल = $6 + 1 \Rightarrow 7$ किमी./घंटा

$$\text{धारा के प्रतिकूल नाव की चाल} = 6 - 1 \Rightarrow 5 \text{ किमी./घंटा}$$

माना नाव x किमी. धारा के अनुकूल चलती है। इसलिए धारा के प्रतिकूल भी x किमी. चलेगी।

प्रश्नानुसार

$$\frac{x}{7} + \frac{x}{5} = 12$$

$$\frac{5x + 7x}{35} = 12$$

$$\therefore 12x = 12 \times 35$$

$$\therefore x = 35 \text{ किमी.}$$